



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80]  
No. 80]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 1978/माघ 27, 1899  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1978/MAGHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1978

(काफी नियंत्रण)

का० ध्रा० 102(अ)—काफी नियम 1955 के नियम 3 के उपनियम (2) तथा नियम 4 के उप नियम (1) के साथ पठित काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित, व्यक्तियों को उनके सामने उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में एनडू द्वारा नियुक्त करती है और यह विनिर्दिष्ट करती है कि ये भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, उक्त पद पर रहेंगे, अर्थात् :—

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 श्री बी० ध्रा० रामाभद्रय्या,<br>वन संरक्षक,<br>काफी बागान परियोजना,<br>विणाखापत्तनम् ।        | छात्र प्रदेश सरकार के<br>प्रतिनिधि |
| 2 श्री पी० शानमुगमुन्दरम्<br>अपर मन्त्रि, केरल सरकार,<br>कृषि विभाग सचिवालय,<br>त्रिवेन्द्रम् । | केरल सरकार के प्रतिनिधि            |
| 3 श्री ए० वेक्टरमत,<br>कृषि निदेशक,<br>चेपाक, मद्रास-5 ।  | तमिलनाडु सरकार के<br>प्रतिनिधि     |

4 श्री टी० सी० मन्नाप्पा सेट्टी,  
चिक्मगलूर, 577101  
कर्नाटक राज्य ।

5 श्री एम० एम० अम्पाय्या,  
वांटेर हल्ली एस्टेट,  
मिदगुर, 571253 ।

6 श्री एम० डी० बापकृष्ण,  
नेन्नाकल एंड हीरियुडा एस्टेट  
कोप्पा-कादुर 577126  
जिला चिकमगलूर ।

7 श्री एम० जे० कृष्णा मोहन  
बायनाड काफी प्रोपर्टी एमो०  
पा० ध्रा० कालपेट्टा,  
साउथ बायनाड, केरल राज्य ।

8 श्री पी० जी० गुरजेर,  
कोप्पा काफी एस्टेट  
कोप्पा-कादुर 577126,  
कर्नाटक राज्य ।

9 श्री बी० डी० शिवप्पा,  
काफी पलान्टर, कुम्बराहल्ली एस्टेट  
जिलाहसन, कर्नाटक राज्य  
डाकखाना कुम्बराहल्ली ।

10 श्री ए० एम० बसवैगोडा,  
भनपुर्व, एम एल ए काफी प्लान्टर,  
थिप्पनाहल्ली एस्टेट,  
डाकखाना चिकमगलूर ।

11 श्री एन० एस० शानमुगमुन्दरम्,  
काफी पलान्टर, पन्नाईककादु  
पोस्ट 624210, जिला मदुरई  
तमिलनाडु ।

12 श्री राजु वेडन,  
हिल स्टेट, कुन्नर, डाकखाना मीलगिरी

बड़े उपजकर्ताओं के  
प्रतिनिधि

बड़े उपजकर्ताओं के  
प्रतिनिधि

बड़े उपजकर्ताओं  
(रोबस्टा) के प्रति-  
निधि

नवो उपजकर्ताओं के  
प्रतिनिधि

13. श्री एम० आर० गणेश,  
बायनाड काफी रोड्स एसो.,  
कमला एस्टेट,  
डाकखाना मर्दाकमाला,  
कालपेट्टा हांकर,  
जिला कालीकट,  
केरल राज्य।
14. श्री विजु आर० चान्दे, निदेशक  
चान्दे एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०,  
डाकखाना, बाक्स नं० 5065,  
बंगलौर।
15. श्री आर० पी० मारथी, प्रोप्राइटर,  
मैसर्स नरसु काफी वक्स, सलेम।
16. श्री के० सी० नायल, ब्रांच मैनेजर,  
पियर्स लेस्ली इंडिया लि०,  
जेप्पु, मंगलौर-575001
17. श्री के० बी० लक्ष्म्या,  
ग्रहयज्ञ, इंटक कर्नाटक आंच,  
मार्फत, हॉटल हिन्दुस्तान,  
गांधी नगर, बंगलौर-560009
18. श्री एम० एम० नारायणन,  
संयुक्त सचिव, तमिलनाडु इंटक,  
मद्रास।
19. श्री राम देसाई,  
सचिव, हिन्द मजदूर ममा, बम्बई।
20. श्री के० एम० सुन्दरम,  
45, हुसैन, मास्ट्रो स्ट्रीट,  
रायपुरम, मद्रास-13।
21. श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार,  
पुलियारमाला एस्टेट डाकखाना  
कालपेट्टा नार्थ, जिला कालीकट  
केरल राज्य
22. श्री के० चन्द्रशेखरन्,  
एडवोकेट, डाकखाना कालपेट्टा नार्थ,  
जिला कोजिकोटे, केरल
23. श्री दयानन्द काले,  
कच्चिनगट्टे एस्टेट,  
कुडरेगुडी, कोट्टा ताल्लुक,  
जिला चिकमगलूर,  
कर्नाटक।
24. श्री डी० बी० चन्द्रगोड़ा  
एडवोकेट,  
चिकमगलूर।
25. श्री सी० एम० पुनाचा, काफी  
पलान्टर, होसूर, विराजपेट ताल्लुक,  
जिला कुर्ग, कर्नाटक राज्य।
26. श्री डी० एस० वर्मा, एम० डी० नेशनल,  
ग्रापरेटिव कन्स्यूमर्स फेडरेशन लि०,  
नई दिल्ली।

लघु उपजकर्ताओं के प्रतिनिधि  
(रोबुस्टा)

काफी व्यापार के हितों के  
प्रतिनिधि

स्पोर्टिंग प्रतिष्ठानों के  
प्रतिनिधि

श्रमिकों के प्रतिनिधि

उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि

अन्य हितों के प्रतिनिधि

[सं० 1/1/77-प्लान्ट (बी)]

टी० बी० ग्रनटोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1978

(COFFEE CONTROL)

S.O. 102 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), read with sub-rule (2) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government here-

by appoints the following persons as members of the Coffee Board to represent the interests mentioned against them and specifies that they shall hold office as such for a term of three years from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely:—

1. Shri B. R. Ramabhadriah,  
Conservator of Forests,  
Coffee Plantation Project,  
Vishakhapatnam. Representative of  
Andhra Pradesh  
Government.
2. Shri P. Shanmugha Sundaram,  
Addl. Secretary,  
Govt. of Kerala,  
Agriculture Dept. Secretariat,  
Trivandrum. Representative of  
Kerala Government.
3. Shri A. Venkataraman,  
Director of Agriculture,  
Chempauk, Madras-5. Representative of  
Govt. of Tamil Nadu.
4. Shri T. C. Manjappa Setty.  
Chikmagalur.-577 101,  
Karnataka State.
5. Shri M. M. Appaiya,  
Wadderhalli Estate,  
Sidapur-571 253. Representatives of  
Large growers.
6. Shri M. D. Balakrishna,  
Netrakal & Hiregudda Estates,  
Koppa-Kadur-577 126,  
Chikmagalur Dist.
7. Shri M. J. Krishna Mohan,  
Wynad Coffee Growers' Assn.  
Kalpetta P.O.,  
South Wynad,  
Kerala State. Representatives of  
Large Growers  
(Robusta)
8. Shri P.G. Gurjer,  
Koppa Coffee Estate,  
Koppa-Kadur-577 126,  
Karnataka State.
9. Shri B.B. Shivappa,  
Coffee Planter,  
Kumbarahalli Estate,  
Hassan Distt. Karnataka State,  
Kumbarahalli P.O.
10. Shri A.M. Basave Gowda,  
Ex-M.L.A. Coffee Planter,  
Thippannahally Estate,  
Chikmagalur P.O.
11. Shri N.S. Shanmuga Sundaram,  
Coffee Planter,  
PANNAIKKADU POST-  
624210, Madurai Distt. Tamil  
Nadu. Representatives of  
Small Growers.
12. Shri Raju Bettan,  
Hill Crest,  
Coonoor P.O. Nilgiris.
13. Shri M.R. Ganesh,  
Wynad Coffee Growers'  
Assn. Kamala Estate,  
Madakkimala P.O.,  
Via Kalpetta,  
Calicut Dist.,  
Kerala State. Representative of  
Small Growers  
(Robusta)
14. Shri Viju R. Chande,  
Director,  
Chande Exports Pvt. Ltd.,  
P.O. Box No. 5065,  
Bangalore.
15. Shri R.P. Sarathy,  
Proprietor,  
M/s. Narasu Coffee Works,  
Salem. Representatives of  
Coffee Trade Interest
16. Shri K.C. Nair,  
Branch Manager,  
Peirce Leslie India Ltd.,  
Jeppu,  
Mangalore-575001. Representative of  
Curing  
Establishments.

17. Shri K.B. Thimmayya, President, INTUC Karnataka Branch, C/o Hotel Hindustan, Gandhinagar, Bangalore-560009.	Representatives of Labour.	23. Shri Dayanand Kalle, Kabbinaagatte Estate KUDREGUNDI Kotta Taluk, Chikmagalur Dt., Karnataka.	Representatives of Consumers.
18. Shri S.M. Narayanan, Joint Secretary, Tamil Nadu INTUC, Madras.		24. Shri D.B. Chandragowda, •Advocate, Chikmagalur.	
19. Shri Ram Desai, Secretary, Hind Mazdoor Sabha, Bombay.		25. Shri C.M. Poonacha, Coffee Planter, Hosur, Virajpet Taluk, Coorg Dist., Karnataka State.	
20. Shri K.M. Sundaram, 45, Hussain Mastery Street, Royapuram, Madras-13.		26. Shri D.S. Varma, M.D., National Cooperative Con- sumers Federation Ltd., New Delhi.	Representative of 'Other Interests'.
21. Shri M.P. Veerindra Kumar, Puliyarmala Estate, P.O. Kalpetta North Calicut, Distt. Kerala State.	Representatives of Consumers.		
22. Shri K. Chandrasekharan, Advocate, Kalepetta North, P.O. Kozhi Kode, Distt. Kerala.			

[No.1/1/77-Plant (B)]

T.V. ANTONY, Jt. Secy.

